



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133]
No. 133

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 1979/चैत्र 7, 1901
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 1979/ CHAITRA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और उर्वरक विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1979

का०बा० 158(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (मुख्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 4 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के आदेश संख्या 1873, तारीख 18 मार्च, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

इस आदेश के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ (2) में,—

- (क) क्रम संख्या 14, "इंसुलिन" के मामले अक्षर, अंक और शब्द "15729 रुपये प्रति एम० यू०" के स्थान पर "13367 रुपये प्रति एम० यू०" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- (ख) क्रम संख्या 10, 'क्लोरोक्विन फास्फेट' के मामले अक्षर, अंक और शब्द,
- "(i) 418 रु० प्रति किलोग्राम जहाँ उसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित विनिमित्तियों में प्रयुज औषधि प्रयुक्त होती है।
- (ii) 428 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरों को विक्रय करने के लिए" के स्थान पर, निम्नलिखित अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—
- "(i) 342 रुपये प्रति किलोग्राम, जहाँ उसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित विनिमित्तियों में प्रयुज औषधि प्रयुक्त होती है,
- (ii) 352 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरों को विक्रय करने के लिए"।

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND
FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Fertilizers)
ORDER

New Delhi, the 26th March, 1979

S. O. 158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970, the Central Government hereby makes the following further amendments to the Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals (Department of Mines & Metals) No. S. O. 1873 dated the 18th March, 1970, namely:—

In the Table annexed to the said order in column (2)—

- (a) against S. No. 14, "Insulin" for the letters, figures and words:—
- "Rs. 15729 per M. U.", the letters, figures and words "Rs. 13367/- per M. U." shall be substituted.
- (b) against S. No. 10, "Chloroquin Phosphate" for the letters, figures and words:—
- "(i) Rs. 418/- per kg., where the bulk drug is used in the formulations manufactured by the same manufacturer;
- (ii) Rs. 428/- per kg., for sale to others."
- the following letters, figures and words shall be substituted, namely:—
- "(i) Rs. 342/- per kg., where the bulk drug is used in the formulations manufactured by the same manufacturer;
- (ii) Rs. 352/- per kg. for sale to others".

[संख्या 12(4)/79-ड्रग-II]

कांभा० 159(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के आदेश संख्या 1873, तारीख 18 मई, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश से संलग्न तालिका में, क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

	(1)	(2)
"23	फेनोबारबिटोन	258.35 रुपये प्रति किलोग्राम"
[संख्या 12(4)/79-ड्रग-II]		
एम० एस० पंडित, उप सचिव		

S. O. 159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-Para (1) of paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970, the Central Government hereby makes the following further amendments to the said Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S. O. 1873 dated the 18th May, 1970, namely:—

In the Table annexed to the said Order after S. No. 22 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

	(1)	(2)
"23	Phenobarbitone	Rs. 258.35 per kg."

[No. 12 (4)/79-Drug-II]
M. S. PANDIT, Dy. Secy.